

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2899

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 मार्च, 2017 को दिया गया)

कंपनियों द्वारा अपने लाभ का प्रतिशत कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय किया जाना

2899. डा. सत्यनारायण जटिया :

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

सरकार द्वारा सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर लाभ का कितना प्रतिशत व्यय किया जाना निर्धारित किया गया है और क्या इस संबंध में सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन और इनकी समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 135 में अपेक्षा है कि प्रत्येक कंपनी कारोबार की विनिर्दिष्ट सीमा या निवल मूल्य या निवल लाभ से ऊपर तत्काल पूर्व तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत निवल लाभों का कम से कम 2 प्रतिशत कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर खर्च करेगी। कारपोरेट को सीएसआर के उचित कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करने के क्रम में मंत्रालय ने सामान्य परिपत्र दिनांक 18 जून, 2014 को स्पष्टीकरण श्रृंखला और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) दिनांक 12 जनवरी, 2016 जारी किए हैं (<http://mca.gov.in>)। कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन 3 फरवरी, 2015 को कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी में सुधार के उपाय सुझाने हेतु किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 22 सितम्बर, 2015 को प्रस्तुत की थी। समिति ने सीएसआर पहलों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सिफारिशों के अतिरिक्त अधिनियम और नियमों में कतिपय परिवर्तन की सिफारिश की थी। जबकि समिति की सिफारिशें हैं कि बोर्ड और सीएसआर समिति उनके स्वयं के स्तर पर सीएसआर की निगरानी का प्रबंध कर रही हैं और सरकार को गुणवत्ता निगरानी हेतु बाह्य विशेषज्ञों को रखने हेतु कोई भूमिका अदा नहीं करनी चाहिए और कंपनियों द्वारा सीएसआर व्यय की दक्षता पर मंत्रालय के स्तर पर कोई

विशिष्ट कार्रवाई परिकल्पित नहीं है, मंत्रालय ने कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 में धारा 135 में संशोधन शामिल कर लिए हैं, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक सेट जारी किया है और वार्षिक "राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार" स्थापित किया है।
